

VIDYA BHAVAN, BALIKA VIDYAPEETH

SHAKTI UTTHAN ASHRAM, LAKHISARAI, PIN:-811311

SUBJECT:- CCA

CLASS:- XTH 'F'

DATE:17/07/XX

SUBJECT TEACHER:- MR. NEEL NIRANJAN

CCA (MOTIVATIONAL STORIES)

हार गया लेकिन खुद से जीत गया

हरीश नाम का एक लड़का था उसको दौड़ने का बहुत शौक था वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी race को पूरा नहीं करता था एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाये वह race पूरी जरूर करेगा अब रेस शुरू हुई

हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब हरीश थक गया था वह रुक गया फिर उसने खुद से बोला अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो

कम से कम चल तो सकता हु उसने ऐसा ही किया वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा

उसने खुद को बोला
की वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा
वह **जिद** करके वापस उठा
लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया
माना कि वह रेस **हार** चुका था
लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले
रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था
वह जमीन पर **पड़ा** हुआ था
क्योंकि उसके पैरों की **मांसपेशियों** में बहुत **खिंचाव** हो चुका था
लेकिन आज वह बहुत खुश था
क्योंकि
आज वह हार कर भी जीता था

दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी life में
कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं
अगर आप एक student हो और रोज 10 hr की study करते हो
और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते मगर आपको
भले ही 5 hr मिले **पढ़ना जरूर चाहिए**
हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम
लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हारकर भी जीत जाएंगे।

छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ

यही सफलता का नियम है।